

Date: 25.04.2023

To,

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, C-1, Block G, Bandra Kurla (East) Mumbai - 400051	BSE Limited P.J. Towers, Complex, Bandra (East) Dalal Street, Mumbai - 400001
--	---

Dear Sir/Madam

Ref: NSE SYMBOL: KSOLVES; BSE SCRIP CODE: 543599

Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”)

Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A and Regulation 47 of SEBI Listing Regulations, we hereby enclose copies of newspaper advertisement published regarding extract of the audited consolidated and audited standalone financial results for the quarter and year ended March 31, 2023, in following newspapers:

1. The Pioneer (English), dated April 25, 2023
2. The Pioneer (Hindi), dated April 25, 2023

The above information is also available on the website of the Company www.ksolves.com.

For Ksolves India Limited

Manisha Kide

Company Secretary and Compliance Officer

World military spending up to an all-time high

AP ■ STOCKHOLM

Global military spending grew for the eighth consecutive year in 2022 to an all-time high of \$2.24 trillion, with a sharp rise in Europe, chiefly due to Russian and Ukrainian expenditure, a Swedish think tank said Monday. Spending globally increased by 3.7% in real terms, but military expenditure in Europe was up 13% — its steepest year-on-year increase in at least 30 years, the Stockholm International Peace Research Institute, or SIPRI, said in a report. Military aid to Ukraine and concerns about a heightened

threat from Russia “strongly influenced many other states’ spending decisions.”

The independent Swedish watchdog said that last year, the three largest arms spenders were the United States, China and Russia, who between them accounted for 56% of global expenditure.

The rise “is a sign that we are living in an increasingly insecure world,” said Nan Tian, a researcher with SIPRI’s Military Expenditure and Arms Production Program.

Several states significantly increased their military spending following Russia’s invasion of Ukraine, while others



announced plans to raise spending levels over periods of up to a decade. Some of the sharpest increases were seen in countries near Russia: Finland (36%), Lithuania

(27%), Sweden (12%) and Poland (11%).

Both Sweden and Finland jointly applied for NATO membership in May 2022, abandoning decades of nonalignment in the wake of Russia’s invasion of Ukraine. While Finland has been admitted, Sweden’s bid to join NATO remains stalled by opposition from Turkey and Hungary.

“While the full-scale invasion of Ukraine in February 2022 certainly affected military spending decisions in 2022, concerns about Russian aggression have been building for much longer,” said Lorenzo Scarazato, a researcher with SIPRI’s Military Expenditure and Arms

Production Program.

“Many former Eastern bloc states have more than doubled their military spending since 2014, the year when Russia annexed Crimea.”

Russia also has increased its military spending. SIPRI said that grew by an estimated 9.2% in 2022, to around \$86.4 billion. That is equivalent to 4.1% of Russia’s gross domestic product in 2022, up from 3.7% the previous year.

Established in 1966, SIPRI is an international institute dedicated to research into conflict, armaments, arms control and disarmament.

Australia plans major overhaul of defences as China rises

AP ■ CANBERRA

Australia needs to spend more on defense, make its own munitions and develop the ability to strike longer-range targets as China’s military buildup challenges regional security, according to a government-commissioned review released Monday.

The Defense Strategic Review supports the so-called AUKUS partnership between Australia, United States and Britain, who in March announced an agreement to create an Australian fleet of eight submarines powered by U.S. nuclear technology.

Prime Minister Anthony Albanese said his government commissioned the review to assess whether Australia had the necessary defence capability, posture and preparedness to defend itself in the current strategic environment.

“We support the strategic direction and key findings set out in the review, which will strengthen our national security and ensure our readiness for future challenges,” Albanese said in a statement.

The public version of the classified review recommended Australia’s government spend more on defense than the current expenditure of 2 per cent of gross domestic product, improve the Australian Defense Force’s ability to precisely strike targets at longer ranges and make munitions domestically.

Other recommendations include improving the force’s ability to operate from Australia’s northern bases and to deepen defense partnerships with key partners in the Indo-Pacific region including India and Japan.

China’s military buildup “is now the largest and most ambitious of any country” since the end of World War II, the review said. And it “is occurring without transparency or reassurance to the Indo-Pacific region of China’s strategic intent,” the review added.

Diplomats flee Sudan fighting as citizens struggle to escape

AP ■ KHARTOUM (SUDAN)

Foreign governments evacuated diplomats, staff and others from Sudan on Sunday as rival generals battled for a ninth day with no sign of a truce that had been declared for a major Muslim holiday.

While world powers like the US and Britain airlifted their diplomats from the capital of Khartoum, Sudanese desperately sought to flee the chaos. Many risked dangerous roads to cross the northern border into Egypt.

“My family — my mother, my siblings and my nephews — are on the road from Sudan to Cairo through Aswan,” prominent Sudanese filmmaker Amjad Abual-Ala wrote on Facebook.

Fighting raged in Omdurman, a city across the

Nile from Khartoum, residents said, despite a hoped-for ceasefire to coincide with the three-day Muslim holiday of Eid al-Fitr.

“We did not see such a truce,” Amin al-Tayed said from his home near state TV headquarters in Omdurman, adding that heavy gunfire and thundering explosions rocked the city.

Over 420 people, including 264 civilians, have been killed and over 3,700 wounded in fighting between the Sudanese armed forces and the powerful paramilitary group known as the Rapid Support Forces, or RSF. The RSF said the armed forces unleashed airstrikes on the upscale neighbourhood of Kafouri, north of Khartoum. There was no immediate army comment.

The ongoing violence has affected operations at the main international airport, destroying civilian planes and damaging at least one runway, and thick, black smoke rose above it. Other airports also have been knocked out of operation. European Union foreign policy chief Josep Borrell tweeted he had spoken with the rival commanders, urging an immediate cease-fire to protect civilians and the evacuation of EU citizens.

In other fighting, a senior military official said it repelled an RSF attack on Kober Prison in Khartoum where Sudan’s longtime ruler, Omar al-Bashir, and former officials in his movement have been held since his 2019 ouster.

The official, who spoke on condition of anonymity because he was not authorized to talk to the media, said a

number of prisoners fled but al-Bashir and other high-profile inmates were in a “highly secure” area, adding that “a few prisoners” were killed or wounded.

The RSF claimed the military removed al-Bashir and other prisoners from the facility, although the statement could not be independently confirmed.

The Arqin border crossing with Egypt was crowded with about 30 passenger buses of at least 55 people each, said Suliman al-Kouni, an Egyptian student who fled northward from Khartoum with dozens of other students.

“We traveled 15 hours on land at our own risk,” al-Kouni told The Associated Press by phone. “But many of our friends are still trapped in Sudan.”

“If they give a Supreme Court-endorsed proposal on joint and immediate polls — by dissolving their governments in May — only then we can talk,” the 70-year-old cricketer-turned-politician said, adding, “But if they are leaving it open-ended, then it is nothing but a trap.” Parliament and the judiciary have also locked horns over the holding of elections in the two provinces, as the cash-strapped government has refused to authorise the funds to meet the expenditures amidst the economic crisis facing the country.

The PTI is determined to press for polls in the provincial legislatures, but the government maintains its stance on simultaneous elections across the country. Asserting that the current caretaker setups should be removed, Khan said, “These setups have become unconstitutional now and we want genuine caretaker governments to be brought.”

Kenya president says cult deaths akin to terrorism

AP ■ NAIROBI (KENYA)

Kenyan President William Ruto said Monday that the starvation deaths of dozens of followers of a pastor in the south of the country is akin to terrorism.

He said the pastor, Paul Makenzi, who is in police custody belongs to jail and not to any religion.

“Mr. Makenzi ... pretends and postures as a pastor when in fact he is a terrible criminal,” Ruto said.

Makenzi was arrested on suspicion of telling his followers to fast to death in order to meet Jesus. A group of emaciated people were rescued alive, but some of those later died. Authorities then turned their attention to dozens of apparent shallow graves on Makenzi’s land.

The total death toll now

stands at 47, with 39 bodies exhumed over the weekend, said a statement from the Inspector General of Police, Japhet Koome, who is visiting the area.

The Kenya Red Cross Society on Sunday said 112 people had been reported missing at a tracing desk set up at Malindi, where the pastor’s main church was located.

Ruto says he has instructed law enforcement agencies to thoroughly investigate the matter as a criminal case not linked to any religion.

Ruto, who was elected in 2022, was hyped as the country’s first evangelical Christian president and has not been shy about his faith, openly praying and weeping in churches before he was elected president.

He has nominated several pastors into parliament and

government agencies like the anticorruption commission.

Makenzi remains in custody and a court allowed investigators to hold him for two weeks as probe into the deaths of his followers continues.

Police have been exhuming bodies in shallow graves marked with crosses at his 800-acre ranch in the Shakahola area, Kilifi county.

The pastor has been arrested twice before, in 2019 and in March of this year, in relation to the deaths of children. Each time, he was released on bond, and both cases are still proceeding through the court.

Local politicians have urged the court not to release him this time, decrying the spread of cults in the Malindi area. Cults are common in Kenya, which has a largely religious society.

Pak govt planning to delay polls: Imran

PTI ■ ISLAMABAD

Pakistan’s ruling coalition is using the pretence of dialogue with the opposition to delay general elections and the government has not yet formally reached out to his party for talks, former premier Imran Khan has said.

In an interview with the ARY news channel, Khan, chief of the Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) party, said that the Pakistan Democratic Movement (PDM) is yet to approach his party for negotiations.

“No one from the PDM has formally approached us yet,” Khan said.

“I fear they are using these negotiations to delay elections. They are just buying time so that elections can be delayed beyond October,” Khan was quoted as saying by the Dawn newspaper.

The National Assembly will complete its five-year term in August this year. According to the Constitution, elections shall be held within 90 days after the dissolution of the lower house. This means that the election must be held by mid-October. The last general election was held in July 2018.

Khan has been pushing for snap elections in Punjab and Khyber Pakhtunkhwa, the provinces where his PTI ruled till recently.

National Assembly and the four provincial assemblies expeditiously.

The Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N)-led PDM coalition rejected the apex court order, saying that talks with the PTI party could not be held under the court’s watch. “I fear they are using these negotiations to delay elections. They are just buying time so that elections can be delayed beyond October,” Khan was quoted as saying by the Dawn newspaper.

The National Assembly will complete its five-year term in August this year. According to the Constitution, elections shall be held within 90 days after the dissolution of the lower house. This means that the election must be held by mid-October. The last general election was held in July 2018.

Khan has been pushing for snap elections in Punjab and Khyber Pakhtunkhwa, the provinces where his PTI ruled till recently.

The PTI dissolved the Punjab and Khyber Pakhtunkhwa assemblies on January 14 and 18, respectively, in a bid to force the ruling PDM coalition in Islamabad to hold early general elections in the country.

Khan added that he gave the Central Vice Chairman of the PTI, Shah Mehmood Qureshi, the mandate to hold talks with the PDM.

He also asserted that the PTI was adamant about holding elections in Punjab, referring to the Supreme Court’s April 4 order in which it directed the government to hold polls in the province on May 14, the report said.

The Supreme Court termed as “unconstitutional” Pakistan’s election commission’s decision to postpone polls in Punjab till October 8 and fixed May 14 as the date for polls in the province.

“Talks can be held if they have a proposal on joint elections,” the PTI chief was quoted

as saying in the report.

“If they give a Supreme Court-endorsed proposal on joint and immediate polls — by dissolving their governments in May — only then we can talk,” the 70-year-old cricketer-turned-politician said, adding, “But if they are leaving it open-ended, then it is nothing but a trap.” Parliament and the judiciary have also locked horns over the holding of elections in the two provinces, as the cash-strapped government has refused to authorise the funds to meet the expenditures amidst the economic crisis facing the country.

The PTI is determined to press for polls in the provincial legislatures, but the government maintains its stance on simultaneous elections across the country. Asserting that the current caretaker setups should be removed, Khan said, “These setups have become unconstitutional now and we want genuine caretaker governments to be brought.”

European leaders to commit to more wind energy production

AP ■ BRUSSELS

Nine Western European leaders on Monday are committing to ramp up the production of clean energy from wind turbines in the North Sea to both meet climate targets and reduce their strategic energy dependence on Russia.

The leaders will also seek to improve security around the growing underwater electricity grid so it cannot fall victim to hybrid threats. Fears of such attacks have increased since the Russian invasion of Ukraine last year.

The leaders said in a joint op-ed contribution in Politico that they need more wind turbines and grid infrastructure “to reach our climate goals, and rid ourselves of Russian gas, ensuring a more secure and independent Europe.”

To underscore their com-

mitments, the Netherlands, Britain, Norway and the European Union all announced new projects to boost the production of such green energy and move toward greater strategic independence.

The summit in Belgium’s North Sea port of Ostend is the second one to address the ever more pressing issue, and has expanded to take in nine leaders, from Belgium, the Netherlands, Luxembourg, France, Germany, Britain, Ireland, Norway and Denmark.

“Europe must switch to green forms of energy faster. We are sending a strong signal about that at this summit,” Danish Prime Minister Mette Frederiksen said in a statement. “A green transition in the North Sea is an important step on the way toward independence from Russian gas and toward fulfilling our goal of a

climate-neutral Europe.” The European Union has committed that 42.5 per cent of total energy consumption should come from renewables by 2030, on the way to becoming a climate neutral bloc by 2050.

The meeting also has a strategic goal in that it wants to increase security around offshore wind farms and the underwater cable system to bring the energy to shore.

Last week, the public broadcasters of four Nordic countries said in a joint investigation that Russia is suspected of spying in the waters of the Baltic Sea and North Sea using civilian fishing trawlers, cargo ships and yachts.

In their common statement, the leaders said they will step up “efforts to react effectively to growing traditional and hybrid threats.”



Yeoman Warders, also known as Beefeaters pose for a photo in their new uniform for King Charles III’s coronation, at the Tower of London on Monday

Sunak pushes UK’s growth plans

PTI ■ LONDON

British Prime Minister Rishi Sunak on Monday joined a live question and answer session with a range of UK businesses as part of a new Business Connect programme, which he says will promote his economic growth priority and optimise the conditions for businesses in the country to thrive.

Over 200 of the UK’s highest-profile CEOs and business leaders, representing key growth sectors, including tech, life sciences and advanced manufacturing, gathered in London for the first Business Connect event to hear direct-

ly from Sunak.

It came as Downing Street released the latest figures to show that 1,800 jobs a month have been created since October 2022 — the month Sunak took charge in the wake of a disastrous mini-Budget which resulted in predecessor Liz Truss being deposed as Prime Minister.

“Since taking office, I’ve spoken to over 1,000 business people — because they are the innovators and change-makers at the heart of our economy, supporting jobs, attracting investment and driving growth,” said Sunak.

“Business Connect provides the next fantastic

opportunity to demonstrate how we are growing the economy. We are bringing together some of the UK’s biggest companies and investors for meaningful dialogue — and I’m a prime minister passionate about working with business to unlock opportunity and progress,” he said.

The British-Indian leader said the UK should be proud of its business credentials and pointed to the creation of 162 tech unicorns, smarter regulation and world-leading universities as the “right ingredients” to double down on growing the economy.

PUBLIC NOTICE
It is to inform all that Shri Laxmi Narain Khanna was owner/transferor of residential house No. A-183, Sector-26, Noida. Shri Laxmi Narain Khanna expired on 02/09/2021. Shri Laxmi Narain Khanna had executed and got registered a will dated 14/08/2015 for the above said property in favour of 1. Anil Khanna (son) 2. Pradeep Kumar Khanna (son) 3. Suni Khanna (grandson) On the basis of this will we, all i.e. Anil Khanna 2. Pradeep Kumar Khanna 3. Suni Khanna have requested for joint mutation/transfer of this property in our favour to Noida Authority. If any one, has any objection on transfer of this property on the basis of the will he can file the objection with in 15 days of this advertisement to housing Dept. Noida Authority, Sector-6, Noida.

Anil Khanna
R/0 A-183, Sector-26, Noida

PUBLIC NOTICE
Notice is hereby given on behalf of Mrs. Sushma Rana w/o Mr. Rajpal Singh Rana who had become owner of Unit/Portion No. C-4, Second floor (back side) without roof rights admeasuring 40 sq. yds. Property No. D-164 & D-164A, admeasuring 200 sq. yds. Khasra No. 603, 604 & 605, Village Khanpur, Tehsil Hauz Khas, (M.B. Road), Colony known as Krishna Park, D-Block, Gokul Dham Society, Devi Road, Khanpur, New Delhi-110060 through Sale Deed dated 05.11.2022 (Doc. No. 9639) from Mr. Kartar Singh (20% Share), Mr. Manish Kumar Aggarwal (20% share), Mr. Suresh Kumar (20% share), Mr. Harish Kumar Sharma (20% share), Mr. Rahul Nagar (20% share). Now the borrower(s) intend to mortgage against the financial assistance from Aditya Birla Housing Finance Limited. To comply the requirements of BANK/NBFC, we give this public notice that if any Person having any type of claim/right/interest over the said property, may inform in writing, at the address mentioned below, about his objections, within 07 days from today, failing which it shall be presumed that the said property is free from all type of Encumbrances, lien, disputes etc.

Lucern Legal LLP
B-93B, Second Floor, Opp. SBI Bank, Sector 2, Noida, UP - 201301; Contact # 0120-4269379

Notice of loss of share certificates
TVS MOTOR COMPANY LIMITED
Registered Office: "Chaitany" No. 12 Khande Mawar Khan Road Nungambakkam Chennai-600006 CIN: L39211TN1992PLC022846 Website: tvsmotor.com Email: contactus@tvsmotor.com Ph: 044 28321115

Notice of loss of share certificates
NOTICE is hereby given that the following share certificate(s) issued by the company are held to have been lost or misplaced or stolen and the registered holders / the legal heirs of the registered holders thereof have applied to the company for issue of duplicate share certificates.

Folio No.	Certificate No.	Distinctive Nos	No. of Shares	Name of Registered Holder
S23474	270	285021-287020	4000	SHASHI TALWAR
	13344	237665345-242358465		

The public are hereby warned against purchasing or dealing in any way, with the above share certificates. Any person(s) who has/have any claim(s) in respect of the said share certificate(s) should lodge such claim(s) with the company at its registered office at the address given above within 15 days of publication of this notice, after which no claim will be entertained and the company will proceed to issue duplicate share certificates.

Place: Chennai
Date : 25.04.2023

For TVS Motor Company Limited
KS Srinivasan
Company Secretary

PUBLIC NOTICE
To be known to all that I, Mrs. SHASHI BHALLA, wife of Late Mr. Ramesh Chander Bhalla, owner of Flat no. 470, Mandakini Enclave, Alaknanda, New Delhi-110019, which is presently under sale, do hereby state that after the death of Mr. Ramesh Chander Bhalla, son of Late Shri A.P. Bhalla, his only legal heirs are (i) Mrs. SHASHI BHALLA (Wife), (ii) Mr. RAHUL BHALLA (Son) and (iii) Mrs. REENA ANJARIA (Daughter). That besides the above mentioned, there are no other legal heirs of Late Mr. Ramesh Chander Bhalla. If any person(s) claims any right, interest, or has any objection, they may write/contact above named person at above residential address or through phone no. 9810221449 within 7 days from the date of publication of this notice.

ACHIN SHARMA (Advocate)
Regd. No. D/5425/2021
210, Tulsī Tower, Alaknanda
Shopping Complex Delhi-110019,
Ph. : 9650865007, 9810221449

PUBLIC NOTICE
FORMNO. INC-26
[Pursuant to Rule 30 of Companies(Incorporation) Rules 2014]
Advertisement to be published in Newspaper for the change in Registered Office of the Company from one state to another Before the Central Government Northern Region Bench, Delhi

In the matter of sub-section 4 of section 13 of the Companies Act 2013 and clause (a) of sub-section (5) of Rule 30 of the Companies(Incorporation) Rules 2014 AND

In the matter of FBK INFOTECH PRIVATE LIMITED having its Registered Office at Plot No 5, First Floor, Block - B Pocket-3, Sector-17, Dwarka, South West Delhi, Delhi-110075

Noticers hereby given to General Public that the company proposes to make the application to the Central Government under section 13 of the Companies Act 2013, seeking confirmation of alteration of Memorandum of Association of the company in term of special resolution passed at Extra ordinary General Meeting held on Friday, 07th Day of April, 2023 to enable the company to change its Registered Office from "National Capital Territory of Delhi" to "State of Haryana".

Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change, may deliver either on MCA portal (www.mca.gov.in) by filling investor complaint form or cause to be deliver or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and ground of opposition to the Regional Director at the Address B-2 WING, 2nd FLOOR, PARYAVARAN BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI-110003, within 14 days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below.

ADDRESS OF REGISTERED OFFICE:
Plot No 5, First Floor, Block - B Pocket - 3, Sector - 17, Dwarka, South West Delhi, Delhi, 110075

FOR FBK INFOTECH PRIVATE LIMITED
SD/-
ANAMIKA PATHAK
DIRECTOR
DIN: 09440082

KSOLVES INDIA LIMITED
(CIN: L72900DL2014PLC269020)
Regd. Office: 317/276, Second floor, Lane no 3, Mehrauli Road, Saket, New Delhi, South Delhi - 110030, IN
Corp. Office : Parekh Workshops, B-4, 1st Floor, B Block, Sector-63, Noida, Uttar Pradesh- 201301
Tel No. : +91-8862699996, E-mail : cs@ksolves.com, Website : www.ksolves.com

Extract of the Audited Consolidated Financial Results for the Quarter & Year ended on March 31, 2023
(Amount in Lakhs)

Particulars	Quarter ended on		Year to date figures for the previous year ended		
	31/03/2023	31/12/2022	31/03/2022	31/03/2022	
Revenue from operations	Audited	Unaudited	Audited	Audited	
2274.47	2055.20	1422.53	7831.16	4,706.86	
Profit before tax	958.36	823.84	595.12	3293.56	2091.43
Profit after tax	733.64	617.60	442.04	2472.04	1589.39
Total comprehensive income for the period	725.59	614.13	438.74	2444.98	1576.82
Paid up equity share capital (Face value: Rs. 10 per share)	1185.60	1185.60	1185.60	1185.60	1185.60
Total reserves (including non-controlling interests)	1052.75	719.41	482.02	1052.75	482.02
Earnings per equity share Basic and diluted	6.19	5.21	3.73	20.85	13.41

Extract of the Audited Standalone Financial Results for the Quarter & Year ended on March 31, 2023
(Amount in Lakhs)

Particulars	Quarter ended on		Year to date figures for the previous year ended		
	31/03/2023	31/12/2022	31/03/2022	31/03/2022	
Revenue from operations	Audited	Unaudited	Audited	Audited	
2246.21	2028.13	1358.91	7711.65	4,534.58	
Profit before tax	933.28	821.28	580.56	3299.31	2029.03
Profit after tax	718.26	613.21	435.30	2487.03	1543.95
Total comprehensive income for the period	710.21	608.74	432.00	2459.97	1531.38

1. The above is an extract of the detailed format of audited financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly audited financial results is available on the website of the Stock Exchange (www.sebiindia.com) and www.sebiindia.com and also on the Company's website www.ksolves.com.

2. The board also approved final dividend of Rs.8 per share for the financial year 2022-23, subject to the approval of shareholders.

By order of the Board
For Ksolves India Limited
SD/-
Ratan Kumar Srivastava
Managing Director

Date : 23.04.2023
Place : Delhi

